



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ 1935 (श0)
(सं0 पटना 171) पटना, बुधवार, 19 फरवरी 2014

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
18 फरवरी 2014

सं0 4 (न) निर्वा-01/09-413—चूँकि राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत, कोचस (रोहतास) एवं नगर पंचायत, महुआ (वैशाली) का गठन करने का निर्णय लिया गया है,

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उन नगरपालिकाओं के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है,

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर पंचायत, कोचस एवं महुआ के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 23 मार्च, 2014 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डा0 एस0 सिद्धार्थ,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 171-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>